



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 28.09.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

"अष्टम अंतर्जनपदीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता" का शुभारंभ



आज दिनांक 28.09.2021 को पुलिस लाइन्स खीरी में 3 दिवसीय "8वीं अंतर्जनपदीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता-2021" प्रारंभ हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय दुल द्वारा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया एवं समस्त प्रतियोगियों को बेहतर प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएं दी गयीं।

प्रतियोगिता में लखनऊ जोन के तीन जनपद खीरी, लखनऊ कमीशनरेट एवं जनपद सीतापुर की टीमों प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान दिनांक 28.09.21 से 30.09.21 तक तीन दिनों की पुरुष व महिला वर्ग में 30 मीटर व 50 मीटर की तीरंदाजी प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर विजेता टीम का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी लाइन, प्रतिसार निरीक्षक खीरी आदि अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 03 नफर वांछित अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र, कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में वांछित/वारंटी/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.09.21 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 410/21 धारा 147/148/149/323/504/307 भा०द०वि० में वांछित 03 अभियुक्तों लल्लू, पुतान तथा बुधई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 12 बोर भी बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही हेतु अभियुक्तों को मा० न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. लल्लू पुत्र स्व० मूलचन्द निवासी कैरातीपुरवा थाना ईशानगर जिला खीरी।
2. पुतान पुत्र स्व० मूलचन्द निवासी कैरातीपुरवा थाना ईशानगर जिला खीरी।
3. बुधई पुत्र स्व० मूलचन्द निवासी कैरातीपुरवा थाना ईशानगर जिला खीरी।

पुलिस टीम

1. उ०नि० श्री शिवप्रकाश पाण्डेय थाना ईसानगर जनपद खीरी
2. का० राहुल कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी
3. का० प्रदीप कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी
4. का० अंकित कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी
5. का० सरजू प्रसाद दूबे थाना ईसानगर जिला खीरी

थाना खीरी पुलिस द्वारा 01 नफर गुमशुदा को सकुशल बरामद किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में "मिशन शक्ति" अभियान के अंतर्गत संपूर्ण जनपद में अपहृताओं/गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा गुमशुदगी सं० 16/21 से संबंधित 01 नफर गुमशुदा को सकुशल बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही कर गुमशुदा को परिजनों के सुपुर्द किया गया।

पुलिस टीम का विवरण:-

उ०नि० टीटू कुमार, थाना खीरी
का० विद्यासागर चौहान, थाना खीरी
का० सचिन कुमार, थाना खीरी
म०का० प्रीति मालिक, थाना खीरी

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त छोटेलाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त छोटेलाल पुलिस जयलाल नि० मुरादपुर थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मैगलगंज पर मु०अ०सं० 463/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मितौली पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तों राजू पुत्र गंदई व अमरु पुत्र राजू निवासीगण कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी के विरुद्ध आपराधिक क्रिया-कलापों में लिप्त रहते हुए आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु जनता में भय व्याप्त करने के कारण थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 339/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 827/21 धारा 323/324/354/354क/452/506 भादवि व 7/8 पाँक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त लक्ष्मी नारायण पुत्र रामकिशुन निवासी चन्द्रिका गौठी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 400/21 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त संदीप पुत्र लल्लू निवासी सुन्दरवल थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 403/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अजीज पुत्र मुस्तफा व सलमान पुत्र अजीज निवासीगण दिसौरा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 180 लीटर अवैध शराब सहित 13 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **180 लीटर अवैध कच्ची शराब, 05 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 13 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **13 अभियोग** पंजीकृत किए गए।

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना निघासन	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	कोतवाली सदर	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना धौरहरा	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना फरधान	20 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना फूलबेहड़	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना पसगवां	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना मैलानी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	180 लीटर	13 अभियुक्त गिरफ्तार